

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रेस विज्ञप्ति

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पाक्योंग गंगटोक में सिक्किम के पहले हवाईअड्डे का उद्घाटन

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018: पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में अब एक हवाईअड्डा है माननीय प्रधानमंत्री ने आज पाक्योंग (गंगटोक) में पाक्योंग हवाईअड्डे का उद्घाटन किया। सिक्किम के माननीय राज्यपाल, श्री गंगा प्रसाद, श्री पवन चामलिंग; माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम, श्री सुरेश प्रभु; माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री एवं नागर विमानन मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग; श्री डी. टी. लेपचा, लोक निर्माण (भवन और आवास) और परिवहन मंत्री, सिक्किम सरकार; श्री प्रेम दास राय, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा); श्री हिशे लचुंगपा, माननीय संसद सदस्य (राज्यसभा) और श्री हेमेन्द्र अधिकारी, विधानसभा सदस्य, रेनौक, सिक्किम की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशभर में हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने, हवाईअड्डे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए जा रहे सक्रिय उपायों के कारण भारत पहले से ही विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे नागरिक उड्डयन बाज़ारों में से एक है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक विमानन बाज़ार बनने के लिए तैयार है।

पाक्योंग में नया हवाईअड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 553 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विकसित किया गया है।

202 एकड़ से अधिक भूमि में फैले हुये इस हवाईअड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग का क्षेत्र 3200 वर्ग मीटर है और इसमें व्यस्ततम घंटों में एक साथ 100 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता है। यह हवाईअड्डा एटीआर 72-500 प्रकार के विमान संचालन को संभालने के लिए विकसित किया गया है।

1,399 मीटर या 4,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पूर्वोत्तर भारत में पहला ग्रीनफ़्रील्ड हवाईअड्डा है जो भारत के पाँच उच्चतम ऊंचाई वाले हवाईअड्डों में से एक होगा।

जटिल भौगोलिक और प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण यह परियोजना बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक थी। विकसित क्षेत्र का अधिकतम उपयोग करने के लिए जियो – ग्रीड मिट्टी सुदृणीकरण और ढलान स्थिरीकरण का व्यापक प्रयोग किया गया था। इस परियोजना की मजबूत दीवार विश्व में सबसे ऊंची मजबूत दीवारों में से एक है। 550 मीटर चौड़े और 1.7 किलोमीटर लंबा गलियारा, जिसमें रनवे और हवाईअड्डे की इमारत का निर्माण किया गया है, इस टर्मिनल बिल्डिंग में 5 चेक-इन काउंटर और एक आगमन कराउसेल है।

इस इमारत को एक विशाल घनत्व वाली इमारत के रूप में देखा जाता है, जिसके माध्यम से यात्रियों को आसानी से सड़क से विमान तक ले जाया जा सकता है। इमारत की भीतरी साज-सज्जा कोलाहल से दूर शांति और ठहराव के भावों को उजागर करती है जो यात्रियों को उनकी लंबी थकान भरी यात्रा के तनाव से मुक्त कर उन्हें आराम करने के लिए स्थान प्रदान करती है। यात्रियों की भीड़ के एक तरफ बैठे हुये बुद्धा की मूर्ति से सुसज्जित आंतरिक ज़ेन गार्डन अपनी निराली छटा बिखेरता है। शीशे की पारदर्शी दीवार से आवृत टर्मिनल अंदरूनी हिस्सों को स्पष्टतया विशालकाय हिमालय की ओर खोलते हुए उसकी विशालदर्शी प्राकृतिक सुंदरता से दृष्टिगोचर कराता है। इस टर्मिनल भवन की विशेषता यह है कि इसके शीशे का आवरण प्राकृतिक दृश्य के सजीव चित्रण को प्रतिबिम्बित करता □□ □

हवाईअड्डे की टर्मिनल इमारत सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है, जिसमें स्टील के ढांचे पर प्रोफ़ाइल शीट वाली छत और शीशे और स्टील के आवरण के साथ प्री – इंजीनियर्ड संरचना भी शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, विद्युत, बीएमएस, अग्निखोजी और अग्निशमन, भूनिर्माण और इंटीरियर डिज़ाइन सहित इंजीनियरिंग सेवाओं के सतत डिज़ाइन ने इमारत को व्यापक और समग्र रूप से सुविधायें प्रदान की हैं, जो इमारत के मूल्य को और बढ़ा रही हैं। इमारत की अंदरूनी साज-सज्जा स्थानीय हस्तशिल्प, भित्ति चित्रों और पर्यटक गंतव्यों को दर्शाती है।

पाक्योंग हवाईअड्डा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, सिक्किम के लोगों के लिए अवसर खोलेगा और आर्थिक विकास के एक नवीन युग का पदार्पण करेगा, अपितु आपातकाल और आपदाओं के दौरान यह हवाई सहायता भी प्रदान करेगा और कोलकता और

गुवाहाटी को उड़ानों के माध्यम से राज्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल देगा।

हवाईअड्डे के उदघाटन समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "नवीन भारत के लिए 100 हवाईअड्डे" नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया था, जिसमें संबंधित हवाईअड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं और हवाईअड्डे की प्रमुख विशेषताएँ व दृश्य दिखाये गए हैं।

निगमित संचार निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया महाप्रबंधक (नि. सं.) से
दूरभाष सं 9811521881,011-24622787 पर
संपर्क करें।
प्रेस रिलीज सं 47/2018-19



माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, पाक्योंग गंगटोक में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राज्यपाल, श्री गंगा प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री पवन चामलिंग; माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, श्री सुरेश प्रभु और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, शिला का अनावरण करते हुये ।